

पत्र सूचना शाखा  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, ३०प्र०

**अतहर साहब का शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान है - राज्यपाल**

लखनऊ 26 फरवरी, 2017

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज स्व० मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब की पहली बर्सी पर बड़े इमामबाड़े में आयोजित शोक सभा में उनके जीवन पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में धर्मगुरु व प्रबुत्थ नागरिकगण भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में कहा कि स्व० मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब का व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का रहा कि वे केवल लखनऊ, उत्तर प्रदेश, हिन्दुस्तान तक सीमित नहीं थे बल्कि विदेशों तक में जाने जाते थे। वे बेहतरीन इंसान थे। उनका मुंबई से करीब का रिश्ता था। मुंबई के मुगल मस्जिद में उन्होंने लगातार 58 साल तक मोहरम में तकरीर की है जो एक अपने आप में एक रिकार्ड है। उन्होंने आपसी एकता और समाज को कुछ देने का संदेश दिया। उनके व्यक्तित्व को निखारने का श्रेय लखनऊ को जाता है क्योंकि उन्होंने यही से शिक्षा ग्रहण की थी। महिलाओं को शिक्षित करने पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि अतहर साहब का शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान है।

श्री नाईक ने कहा कि सभी धर्म एकता का संदेश देते हैं। कोई भी धर्म भ्रेदभाव नहीं सिखाता है। आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है। हमें अपने युवाओं को उचित शिक्षा एवं सही दिशा देनी चाहिये। भारत 2025 तक विश्व का सबसे बड़ा युवा शक्ति वाला देश होगा। युवा हमारी पूँजी हैं। इस पूँजी का अच्छा उपयोग होता है तो स्वाभाविक रूप से देश आगे बढ़ता है। युवाओं को अच्छी शिक्षा और उचित दिशा देने से देश का भला हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर हमें यह संकल्प लेना चाहिये कि हम सब एक हैं और एकता की भावना से ही आगे बढ़ना चाहिये।

----

अंजुम/ललित/राजभवन (66/23)



